

### STAR DELTA TRANSFORMERS LTD.

Regd. Office: 92-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462 023 (M.P.) INDIA Tel.:(O) 0755-2586680, 4261016, 2587343, 4261003, Fax:(0755)2580059 e-mail: star.delta@rediffmail.com, info@stardeltatransformers.com, PROJECT DIVISION: projects1sdtl@yahoo.com



website: www.stardeltatransformers.com, CIN-L31102MP1977PLC001393

Dated: 10<sup>th</sup> August 2018

M/s BSE Limited
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001
Phones: 91-22-22721233/4
Email:corp.relations@bseindia.com

SCRIP CODE: 539255

Subject: Financial results for the quarter ended June 30<sup>th</sup>, 2018- Regulation 33(3)(a) SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations 2015

Sirs,

With reference to the subject cited, it is hereby informed that the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, 10<sup>th</sup> August 2018 at 3.30 P.M. at the registered office of the Company, interalia, considered and approved the Standalone Un-audited Financial Results along with the Limited review report of the statutory auditors of the Company for the quarter ended 30<sup>th</sup> June 2018.

Copy of Standalone unaudited financial Results for the quarter ended June 30<sup>th</sup>, 2018, along with the Limited Review Report is enclosed herewith.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

For & on behalf Star Delta Transformers Ltd.

Ankita Upadhyay Company Secretary/ Compliance Officer 92 "A"
Indl. Area
Govindpura,

BHOPAL-73\*

Encl as above



### STAR DELTA TRANSFORMERS LTD.

Regd. Office: 92-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462 023 (M.P.) INDIA Tel.:(O) 0755-2586680, 4261016, 2587343, 4261003, Fax:(0755)2580059 e-mail: star.delta@rediffmail.com, sdtl.bhopal@gmail.com, mayankgupta86@gmail.com website: www.stardeltatransformers.com, CIN-L31102MP1977PLC001393



ISO 9001:2008 CERTIFIED CO.

	Statement of Standalone Un-audited financia	I Results for the qu	uarter ended 30ti	1 June,2018		
		C	Year ended			
Sr. No.	PARTICULARS	30.06.2018	31.03.2018	30.06.2017	31.03.2018	
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	
	Income from Operations		10 P			
i	(a) Revenue from Operation	2055.13	2341.13	2289.31	5978.33	
11	(b) Other Income (Refer note.1)	25.13	48.19	15.45	82.32	
m	Total Revenue (I+II )	2080.26	2389.32	2304.76	6060.65	
IV	Expenses (a) Cost of Materials consumed	1722.67	2169.1	1469.48	5224.75	
	(b) Purchase of stock-in-trade	-	-	272		
	(c) Change in inventories of finished goods, work-in-progress	(00.00)	(203.51)	211.00	(948,51	
_	and stock-in-trade	(99.00)				
	(d) Employee benefit expense	67.94	58.55	49.63	220.62	
	(e) Finance Costs	35.73	34.09	43.06	109.22	
	(f) Depreciation and amortisation expense	19.25	18.43	19.50	76.9	
	(g) Other expenses	234.66	61.23	393.61	1052.9	
	Total Expenses	1981.25	2137.89	2186.28	5735.9	
v	Profit / (Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)	99.01	251.43	118.48	324.7	
VI	Exceptional Items	0.00	0.00	0.00	0.0	
	Exceptional terms	0.00	0.00	0.00	0.0	
VII	Profit / (Loss) before extraordinary item and tax (V-VI)	99.01	251.43	118.48	324.7	
VIII	Extraordinary Items	0.00	0.00	0.00	0.0	
ΙX	Profit (Loss) before Tax (VII-VIII)	99.01	251.43	118.48	324.7	
х	Tax expenses					
	Current Tax	18.98	38.81	12.76	114.0	
	Deffered Tax	0.00	(7.00)	0.00	(7.00	
XI		90.09	240.62	105.72	217.74	
5000	Profit / (loss) for the period from continuing operations	80.03	219.62	105.72	217.74	
XII	Profit / (Loss) for the period from discontinuing operations before tax	0.00	0.00	0.00	0.0	
XIII	Tax expenses of discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	
XIV	Profit / (Loss) from discontinuing operation after tax (XII-XIII)	0.00	0.00	0.00	0.0	
	Profit / (Loss) for the period before minority interest	0.00	0.00	0.00	0.0	
xv	(XI+XIV)	80.03	219.62	105.72	217.74	
XVI	Share of Profit / (Loss) of associates*	0.00	0.00	0.00	0.0	
XVII	Minority Interest *	0.00	0.00	0.00	0.0	
	DOWN AND CONTRACTOR	0.00				
XVIII	Profit / (Loss) for the period (XV-XVI-XVII)	80.03	219.62	105.72	217.74	
XIX	Other comprehensive Income :	0.00	0.00	0.00	0.0	
	(i) Items that will not be reclassified to profit and loss:	0.00	0.00	0.00	0.0	
	(a) Remeasurements of the defined benefit plans	0.00	0.00	3.34	0.0	
	(b) Equity Instruments through other comprehensive Income	0.00	0.00	0.00	0.0	
	(ii) Tax relating to items that will not be reclassified to profit			=	A.J.	
	and loss	0.00	0.00	0.00	0.0	
	Total other comprehensive income	0.00	0.00	0.00	0.0	
	Total comprehensive income for the period	80.03	219.62	105.72	217.7	
XX	Paid up equity share capital (face value Rs. 10/-)	300.02	300.02	300.02	300.0	
XXI	Other Equity	3922.11	3842.08	3624.34	3842.0	
	Net Worth	4222.13	4142.10	3924.36	4142.1	
XXII	Earning Per Share (EPS)					
201	(i) Earnings per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) not annualised):					
	(a) Basic	2.67	7.32	3.52	7.26	
	(b) Diluted	2.67	7.32	3.52	7.26	
	(ii) Earnings per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) not annualised):			2.50	7.00	
	(a) Basic (b) Diluted	2.67	7.32	3.52 3.52	7.26	
	apotests/or	2.67	7,32	3.32		
XXIII	Debt equity ratio		( <del>1</del> ):		6.040	
XXIV	Debt service coverage ratio			22		



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVIS



Regd. Office: 92-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462 023 (M.P.) INDIA Tel.:(O) 0755-2586680, 4261016, 2587343, 4261003, Fax:(0755)2580059 e-mail: star.delta@rediffmail.com, sdtl.bhopal@gmail.com, mayankgupta86@gmail.com website: www.stardeltatransformers.com, CIN-L31102MP1977PLC001393



#### Notes:

1 Other Income includes following -

(Rs. In Lacs)

Particulars	30.06.2018	31.03.2018	30.06.2017	31.03.2018 Audited	
	Un-Audited	Audited	Un-Audited		
Investment income	-		-	-	
Interest received	18.26	37.93			
Commission on Sales Received	6.85	0.00	0.00	0.00	
Profit on Sales of Vehicle	0.02	0.00	0.00	0.00	
Miscellaneous Income	0.00	10.26	0.00	10.27	
Others Income	25.13	48.19	15.45	82.32	

- The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, read with relevant rules issued there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 05th July 2016.
- The above result have been reviewed by Audit Committee, approved by the board in the meeting held on 10th August, 2018
- The company has two business segment. In view of Ind AS-108 company has identified its business segments as its primary reportable segments which comprise of Manufacturing of electrical transformers and Production and supply of solar power.
- The figures for the quarter ended March 31, 2018 as reported in these financial results, are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the end of the third quarter of the relevant financial year
- Comparitive figures have been regrouped/reclassified to confirm to the current periods/years presentation

Place: BHOPAL

Dated: 10th August, 2018

By order of Board of Directors For Star Delta Transformers Limited

Kishore Gupta (DIN:00014205)

Managing Director



### STAR DELTA TRANSFOR

Regd. Office: 92-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462 023 (M.P.) INDIA Tel.:(O) 0755-2586680, 4261016, 2587343, 4261003, Fax:(0755)2580059 e-mail: star.delta@rediffmail.com, sdtl.bhopal@gmail.com, mayankgupta86@gmail.com website: www.stardeltatransformers.com, CIN-L31102MP1977PLC001393

Segment - wise Revenue, Results and Capital Employed (Standalone)



9

ISO 9001:2008 CERTIFIED CO.

(In Lakhs)

Quarter ended

#### PART II

Year ended S.No. **Particulars** 30.06.2018 31.03.2018 | 30.06.2017 31.03.2018 **Un-Audited** Audited **Un-Audited** Audited Segment Revenue Transformers 2027.84 2334.70 2276.62 5943.97 Solar Power 27.29 6.43 12.69 34.36 Total 2055.13 2341.13 2289.31 5978.33 Segment Profit before tax and finance costs Transformers 114.79 268.09 155.92 409.81 Solar Power 19.95 17.43 5.62 24.15 Total 134.74 285.52 161.54 433.96 Less-Finance costs 35.73 34.09 43.06 109.22 Other unallocable expenditure net off unalocable income 0 0.00 0 Total Profit before Tax 99.01 251.43 118.48 324.74 Capital employed (Segment assets - Segment liabilities) Segment assets Transformers 468.42 480.11 504.74 480.11

In view of Ind AS-108 company has identified its business segments as its primary reportable segments which comprise of "Manufacturing of electrical transformers" and "Production and supply of solar power".

The figures of the segment for the quarter ended March 31, 2018 as reported in these financial results, are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the end of the third quarter of the relevant financial year

Place: BHOPAL

Dated: 10th August, 2018

Solar Power

Unallocable

Segment liabilites Transformers

Capital employed Transformers

Sub -total

Solar Power

Unallocable

Sub -total

Solar Power

Unallocable

Total

By order of Board of Directors For Star Delta Transformers Limited

Kishore Gupta (DIN:00014205) Managing Director

267.85

736.27

143.36

143.36

468.42

124.49

592.91

0.00

0

0

274.57

754.68

0.00

0.00

154.87

154.87

480.11

119.70

599.81

0.00

0.00

294.73

799.47

187.66

187.66

504.74

107.07

611.81

0.00

0

0

0

274.57

754.68

154.87

154.87

480.11

119.70

599.81

0.00

0

0

#### S. L. KHABYA & CO.

LIMITED REVIEW REPORT

**Chartered Accountants** 

To, The Board of Directors Star Delta Transformers Limited Bhopal

We have reviewed the accompanying statement of unaudited standalone Ind AS financial results of M/s Star Delta Transformers Limited, for the quarter ended 30th June 2018, being submitted by the Company pursuant to Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015 as modified by the Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 05<sup>th</sup> July 2016. This statement is the responsibility of the Company's Management and has been approved by the Board of Directors. Our responsibility is to issue a report on these financial statements based on our review.

Attention is drawn to the fact that the figures for the 3 months ended 31 March 2018 as reported in these financial results are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the previous financial year. The figures up to the end of the third quarter of previous financial year had only been reviewed and not subjected to audit

We conducted our review in accordance with the Standard on Review Engagement (SRE) 2410, Review of Internal Financial Information performed by Independent Auditor of entity issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the financial statements are free of material misstatement. A review is limited primarily to inquires of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provide less assurance than an audit, We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review conducted as above , nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying statement of unaudited standalone financial results prepared in accordance with applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) and other recognized accounting practices and policies, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including the manner in which it is to be disclosed , or that it contains any material misstatements.

FOR S.L. KHABYA & CO. Chartered Accountants FRN:000004C

C.A. Sumit Khabya

Partner M. No. 0414887

Place: Bhopal Date:10/08/2018



## Guj MLA heading for 'jal samadhi' Vision Document for digital detained with Hardik, others

Congress legislator Lalit Vasoya was proceeding to take 'jal samadhi' in Bhadar river to protest against the textile dyeing units polluting it with untreated effluents

RAJKOT, Aug 11 (PTI)

A GUJARAT Congress legislator, on his way to take 'jal samadhi' in Bhadar river in Rajkot district, was on Saturday detained along with seven other MLAs of his party, Patidar leader Hardik Patel and others at Bhukhi village in the

district, police said. Congress legislator Lalit Vasoya, who represents Dhoraji Assembly Constituency, was proceeding to take 'jal samadhi' (suicide by drowning) in Bhadar river to protest against the textile dyeing

units polluting it with untreated effluents. Seven other Congress MLAs, including Pratap Dudhat who represents Savarkundla assembly segment, Patidar quota stir spearhead Hardik Patel and others had gathered in support of Vasoya at Bhukhi village.

"Apart from Vasoya, seven other Cong MLAs, Hardik and around12 others were detained. They had gathered in Bhukhi village in support of Vasoya, who was heading for 'jal samadhi'," Jetpur Deputy SP J M Bharwad said."They were released after Vasoya and others gave a written assurance that he will not taken 'jal samadhi'," he added.

Earlier this week, the MLA had submitted a memorandum to Chief Minister Vijay Rupani and Governor O P Kohli threatening to take 'jal samadhi' today in case the government failed to act against untreated effluents from industrial units polluting Bhadar

river and the reservoir.

Vasoya had alleged that untreated toxic waste from textile dyeing units in Jetpur town was being released into Bhadar river which in turn was polluting the reservoir.

The Bhadar-2 reservoir supplies drinking water to Dhoraji. Neither the Rajkot collector nor the officials of Gujarat Pollution Control Board have taken cognisance of this issue despite repeated reminders, he had claimed.

Following their detention, Vasoya and Hardik alleged that they were offered money by certain people not to take the protest. "The Government belongs to

the industrialists. Industrialists are polluting the river by releasing chemicals into it. Before coming here, I was made an offer of Rs 50 lakh by the middlemen of certain people. Two days ago, Lalitbhai (Vasoya) was offered Rs 1 crore," Hardik told reporters.

# **N-E launched with big plans**

Union Minister Ravi Shankar Prasad unveiled the plans under the 'Digital North-East: Vision 2022

GUWAHATI, Aug 11 (PTI)

**UNION Information Technology** Minister Ravi Shankar Prasad on Saturday released the 'Vision Document' for a digital North-East by 2022 that aims to enhance peoples' lives by capacity building of Government staff and doubling Business process outsourcing strength in region.

Unveiling the plans under the 'Digital North-East: Vision 2022', Prasad said, the document emphasises leveraging digital technologies to transform lives of people of the North East and enhance the ease of living.

He said a cloud hub for North East will be created in Guwahati and capacity building for 50,000

Government staff will be taken up in using digital technologies, including Goods and Services Tax and payment platforms. The number of seats planned for BPOs in the North Eastern states will be doubled to 10,000 from 5,000, while the network of common service centres will be expanded to cover all villages, Prasad said. The document said high speed broadband connectivity in all the uncovered villages in the North Eastern region shall be provided.

The document identifies eight digital thrust areas -- digital infrastructure, digital services, digital empowerment, promotion of electronics manufacturing, promotion of IT and IT enabled services including BPOs, digital payments, innovation & startups, and cyber security. The Vision Document aims to empower the people of the North Eastern region and state-wise roadmaps have been developed for implementing digital initiatives.

#### FROM THE FRONT PAGE

### Any society which does not innovate will stagnate: PM

He said seven lakh engineers pass out of the country's educational campuses, and a collective effort was required to ensure they get high quality of education and acquire necessary skills.

"I appeal to teachers and intellectuals present here that they should think about how quality can be improved and come up with suggestions. It is our responsibility to ensure that not only quantity but quality too is of high level. The Government is also actively taking steps for this," Modi said. Heaping praise on IIT-B, Modi said, "It is due to last six decades of constant trying that IIT-B has made its place as one of the country's eminent institutes. You will be receiving a financial aid of Rs 1.000 crore which will help in the development of infrastructure.'

The Prime Minister said several students who have graduated from the institute are actively participating in the country's development. Modi said that in the last four years, seven IITs, seven IIMs (Indian Institute of Management), two IISER (Indian Institutes of Science Education and Research) and 11 IIITs (Indian Institute of Information Technology) have been approved. "In order to improve infrastructure, (Revitalisation of Infrastructure and Systems in Education) programme has been initiated.

#### **Monsoon 10% deficient**

The forecasting agency stated that the low performance of monsoon rains in West Coast and the North-East is primary reason behind the deficit in

According to Skymet, both the regions are the two rainiest pockets during the monsoon season. "For the last many days, both the regions are not having sufficient rains. Until and unless, these regions perform together, the rainfall deficiency will continue to mount," it added. As per the Skymet statistics, Konkan and Goa that were surplus by 47 per cent as on July 20, now stand at 12 per cent periphery on August 8. Similarly, coastal Karnataka which was witnessing above normal rains by 13 per cent on July 20 is currently witnessing below normal rains at minus 3

per cent. Northeast India is also witnessing highly deficient Monsoon rains, said Skymet. As on August 8, Arunachal Pradesh is rain-deficient by 36 per cent, Assam and Meghalaya by 32 per cent and Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura by 25 per cent. Skymet said the off-shore

ers right from South Gujarat coast to Kerala, but it remained weak this time. This is a semi-permanent feature and waxing and waning of

trough that runs along the West

Coast is responsible for show-

this trough is normal. Another factor, as per the weather agency, is monsoon trough which in this season remained confined to north of its normal position, that is foothills of the Himalayas, for a considerable time.

### **Summons to Nirav's** sister, brother

under the new Act by the Enforcement Directorate (ED)

against the diamond merchant. The two have been charged by the ED to have indulged in money laundering and subsequently, escaping from India as

the alleged scam came to light. The notice against Purvi and Neeshal show causes them to explain as to "why the properties mentioned in the application (filed by the ED earlier), in which you have pecuniary interest and/or otherwise, should not be confiscated under the said Ordinance (now the Fugitive Economic Offenders Act)." The court has asked the duo to appear before it on September 25 at 11 am, the same date on which Nirav has also been summoned by it under the Fugitive Economic

Offenders Act. The third public notice against Nirav Modi asked him to depose on the same date and

time as it said that he is accused

Therefore, the judge said in the public declaration, "I issue notice to you (Nirav) to show cause as to why the said application for declaring you a fugitive should not be allowed and as to why the the properties mentioned in the application, in which you have pecuniary interest and/or otherwise, should not be confiscated under the said Ordinance (now the Act)." "I, therefore, direct Nirav Deepak Modi to remain present before me... On or before September 25 at 11 AM falling which the said application shall be proceeded with as per the Ordinance/Rules there-

# clarify stand on NRC issue

Alleging that the Bangladeshi

Accusing the TMC of spreading the propaganda that the refugees would be driven out

"But the Congress and the TMC should clarify whether they agree with the bill or not,"

the BJP Chief said.

in a money laundering case and "as you have left India and are refusing to come back to face trial in that case, you should be declared a fugitive under the above-mentioned Ordinance (now the Act)."

after," the notice said.

# Shah asks Mamata, Rahul to

to keep the Bangladeshi infiltrators? You should make your stand clear," he said, adding that the TMC Chief was against the NRC for "vote-bank politics".

infiltrators were a vote bank of the previous Communist Government in the State and now, they had become a vote bank of the TMC, Shah said, "Rahul Gandhi and Mamata didi should clarify whether National Security is important for them or vote bank. For the BJP, the country comes first."

of the country, he said, "I assure all the refugees that nothing will happen to them."

Central The BJP-led Government had brought the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 for this purpose, Shah said.

The bill, introduced in the Lok Sabha in 2016, seeks to amend the Citizenship Act, 1955 to provide citizenship to the illegal Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan.

Saying some people talked about the human rights of the illegal migrants, he wondered what would happen to the human rights of the citizens of Bengal - both Hindus and Muslims. "They do not bother about that," Shah said.

Referring to posters displaying "Anti-Bengal BJP to leave Bengal", he said the BJP party was neither anti-Bengal nor anti-Bengali, but was against the "misrule" of the TMC. NOT OPPOSED TO NRC, BUT

TO THE WAY IT'S BEING **IMPLEMENTED: CONG: THE** Congress is not opposed to the NRC but to the way it was being implemented in Assam, AICC spokesperson Pawan Khera said here on Saturday and accused BJP President Amit Shah of doing politics over the citizens'

"Amit Shah does not know the history of NRC. The 1985 Assam Accord was signed by Rajiv Gandhi and the Congress after coming to power. The party initiated the NRC process in 2005," Khera told a press conference. He claimed that 80 per cent of the NRC work in Assam was done by the Congress, and the rest by Bharatiya Janata Party after the Supreme Court's directive. "Also during the tenure of the Atal Bihari Vajpayee-led NDAGovernment, there was no work on the NRC in Assam," Khera said.

### Rahul attacks Govt for 'rising' atrocities against Dalits

Rahul Gandhi accused Prime Minister Narendra Modi of having an "anti-Dalit" mindset

NEW DELHI, Aug 11 (PTI)

CONGRESS President Rahul Gandhi on Saturday attacked the Modi Government over alleged

rising atrocities against Dalits, citing a media report which claimed that BJP-ruled States registered the highest number of crimes against the Scheduled

remarks Gandhi came days after he

accused Prime Minister Narendra Modi of having an "anti-Dalit" mindset. "Mr 56's best buddy, asked me to 'check my facts' when I said the BJP fuels violence against Dalits & Adivasis," he

**WEST CENTRAL RAILWAY** 

e-Tender Notice

India acting through Deputy Chief Electrical Engineer (Works), West

Central Railway, East side o

Habibgani Railway Station, (Shak

Nagar Side), Construction Office

building, Habibganj, Bhopal (M.P.) 462024, invites from the repute

Contractors, for the following works Tender No: BPL/LC/T/560

electrical works (electrical wiring, cable

laying, erection of LT panel/SDB etc.) at

various locations in CRWS/NSZ

months. Estimated cost in Rs. 7,12,725/- EMD in Rs.: 14,260/

through ireps gate way. Tender form Cost: Rs. 2000/- through ireps gate

hrs. on 05.09.2018. The complete

available in website IREPS

(www.ireps.gov.in) and also placed or the notice board of the office of DY.CEE(W)BPL. Tenders other than in

the form of e-bids shall not be accepted

DY.CEE(W)BPL

Dated :- 10th August, 2018

Completion period: 03

Description of work: Miscell

tweeted. "I hope the fact check I'm attaching below, will wake him and Mr 56 up from their deep slumber on these rising atrocities; or I and the Congress party will," he said, tagging a media report which cited the National Crime Records Bureau data of 2016 to claim that BJPruled States registered the highest number of crimes against the Scheduled Castes

Gandhi has been taking at a swipe at Modi over his "56-inch chest" remark made at election rallies in the runup to the 2014 polls. BJP Chief Amit Shah

targeted the Congress Chief to look

at facts before criticising the Government over issues related to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Shah had also alleged that it was the Opposition party that had a legacy of insulting Dalits.



Devotees perform 'Bali tharpan' on the occasion of 'Karkidaka Vavu' at Ponkuzhi Srirama Temple, in Wayanad, in Kerala, on Saturday.

### Legal process for Maratha Family worships fake godman quota needs time: Pawar

NATIONALIST Congress Party (NCP) President Sharad Pawar on Saturday said the constitutional to be completed by the process for grant of reservation to the Maratha community would

need time, and agitators must keep this in mind and desist from indulging in violence.

The Bharatiya Janata Party-led Maharashtra Government had taken a similar stand earlier, saying it needs time to fulfil the Marathas' quota demand by fol-

lowing the legal procedure. "Once an agitation is started, one must also know when to stop it. I congratulate (the agitators) for thinking of this. The agitation has brought the Maratha community's strong sentiments to the fore. Constitutional procedures are needed to be completed for ful-

filling the demand. For that appropriate period of time is necessary," Pawar said in a signed statement issued on Saturday. For this process Government and legislature

"peace is necessary", the former Union Minister, himself a Maratha, said.

> "Also, it must be ensured that the industry in the State is not harmed due to the agitation. Such an agitation will put a stop to investment in industry and the

problem of unemployment will worsen. Therefore, peace must be the top priority for Maratha agitators," the Nationalist Congress Party (NCP) Chief said. The agitation must be carried out without any "prejudices", and reservation must be granted to the Marathas without reducing the quota granted to other communities.

# to bring life to dead child

The family members of the deceased child along with some villagers started worshipping the Rampal baba with the belief that such worship will bring life to the child

KENDRAPARA, Aug 11 (UNI)

DRIVEN by superstition a family and some villagers on Friday last worshipped the photo of fake godman Rampal baba and played devotional songs to bring life to a dead child.

Sources said one Mahesh Sagar Pradhan (7), died following illness. He was taken to Kendrapara district head quarter hospital, but the doctor declared him as brought dead. The family members of the deceased child along



with some villagers of Baliapal village under Mahakalpada Police station of the district, however, started worshipping the Rampal baba with the belief that such worship will bring life to the child.

Instead of cremating the body, the family members who are devotees of the baba presently in jail, laid their son in front of the photo of the baba and played devotional songs with the belief that baba would make their son alive by his divine power.

Later some devotees of baba also joined the family members.

#### STAR DELTA TRANSFORMERS LIMITED

CIN: L31102MP1977PLC001393 Regd. Office: 92-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal, M.P. – 462023 Phone: +91-0755 2586680, Email: star.delta@rediffmail.com, Website: www.stardeltatransformers.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL** RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2018

Particulars	Quarter ended Preceding quarter ended Quarter ended 20.06.2018 31.03.2018		Corresponding quarter ended in the previous year	Year ended 31.03.2018	
			30.06.2017		
	(Un-audited )	( Audited )	(Un-audited )	(Audited )	
Total Income from operations (net)	2080.26	2389.32	2304.76	6060.65	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extra ordinary items)	99.01	251.43	118.48	324.74	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	99.01	251.43	118.48	324.74	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	80.03	219.62	105.72	217.74	
Total comprehensive income for the period	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equity Share Capital	300.02	300.02	300.02	300.02	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous year)	3922.11	3842,08	3730.06	3842.08	
Earning Per Share (of Rs. 10/- each)					
Basic :	2.67	7.32	3.52	7.26	
Diluted :	2.67	7.32	3.52	7.26	

 This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. The above result have been reviewed by Audit Committee, approved by the Board in the meeting held on 10th August, 2018

. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company website (www.stardeltatransformers.com)

For Star Delta Transformers Limited Kishore Gupta

### No restrictions on CMs, State Ministers visiting China: Govt

NEW DELHI, Aug 11 (UNI)

THERE are "no restrictions" on the travel of Chief Ministers and Ministers of State Governments visiting China, the Central Government has said and clarified that number of Opposition leaders have visited that country for official works.

According to official sources here on Friday, among others Bihar Minister of Water Resources Rajiv Ranjan Singh has also visited China in April this year. Among the Chief Ministers the likes of K Chandrasekhar Rao (Telangana) and his counterpart N Chandrababu Naidu (Andhra Pradesh) have visited the State from time to time.

The Bharatiya Janata Party Chief Ministers who visited China include the likes of Anandiben Patel (Gujarat - in May 2015), Devendra Fadnavis (Maharashtra in 2015), Manohar Lal Khattar (Haryana in January 2016), Raman Singh (Chhattisgarh in April 2016) and Shivraj Singh Chouhan (Madhya Pradesh in June 2016). The "disclosures" from the Central Government sources - in multiple ministries including Ministry of External Affairs - come after West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee had tried to slam the Narendra Modi Government for allegedly disallowing her visit to China. On August 7, in her posting on the

Twitter, Trinamool Chief Banerjee in her poem titled 'Untouchable' had targeted the BJP-led regime for allegedly disallowing her visit to China, Chicago and on the cancelled 'invitation' from Delhi's St Stephen's College. According to official sources,

China twice - one each time in 2015 and 2016. From among the State level Ministers, Telangana Industry Minister Jupally

Rao

visited

Krishna

Chandrababu Naidu has in fact visited

China in September 2015, so did the State Energy Minister G Jagadish Reddy. Sukhbir Singh Badal, had visited China in May 2016 while Madhya Pradesh Commerce and Industry Minister Yashodhara Raje Scindia also visited that country June 2016.

# हवाई अड्डे के मैकेनिक ने चुराया अलास्का एयरलाइंस का प्लेन, आईलैंड पर क्रैश

अमेरिका के सिएटल-टाकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में शनिवार को एक एयरपोर्ट कर्मचारी ने खाली प्लेन चुराकर उसमें करीब एक घंटे तक उड़ान भरी, हालांकि दो मिलिट्टी फाइटर जेट द्वारा चेतावनी दिए जाने पर उसने प्लेन को 50 किलोमीटर दूर केट्रॉन द्वीप पर क्रैश करा दिया। मैकेनिक ने प्लेन तब चुराया था, जब सभी यात्री उससे उतर चुके थे।

आखिर मैकेनिक ने यह कढम क्यों उठाया।



अधिकारियों को प्लेन चोरी होने की जानकारी उस वक्त मिली जब पायलट ने बिना अधिकार के ही प्लाइट टेक-ऑफ करा

लेकिन वो इसे नियंत्रित करने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकी प्लेन को एयरपोर्ट से बर ले जाकर समब

के ऊपर नहीं उडाता। चोरी करने वाले आदमी की पहचान नहीं जारी की गई है, लेकिन उसकी उम्र 29 साल बताई गई है।

माना जा रहा है कि क्रैश में ही शख्स की मौत हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी अब इस बात का पता लगा रहे हैं कि

दी। पियर्स काउंटी शेरिफ के मुताबिक ये कोई आतंकी घटना नहीं है। कर्मचारी ने प्लेन शायद मजे के लिए उड़ाया था

अमेरिका के सिटएल-टाकोमा में एयरपोर्ट पर पदस्थ एक मैकेनिक ने ही अलास्का एयरलाइंस का विमान चुरा लिया। खाली प्लेन को हवा में करीब एक घंटे तक उड़ाता रहा इस दौरान यूएस एयरफोर्स के दो फाइटर जैट के उड़ान भरने और उसे चेतावनी देने के बाद वह आईलेंड पर क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि मैकेनिक ने आत्महत्या के इरादे से ही उक्त प्लेन चुराया था।



घटना के बाद हवाई अइडे पर

उडानें रोक दी गई थीं, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। पर्सी काउंटी में रहने वाले रॉयल किंग नाम के एक युवक ने बताया कि शुक्रवार रात वह एक शादी में फोटोग्राफी कर रहा था। उस वक्त एक हवाई जहाज और दो फाइटर प्लेन को आगे-पीछे उडते देखा। यह किसी फिल्म जैसा सीन था। किंग के मुताबिक उसे प्लेन क्रैश होने की जानकारी नहीं है, लेकिन उसने आईलैंड से धुआं उठते देखा था। माना जा रहा है कि यह वही चोरी का विमान ही है।

स्थानीय मीडिया ने एयरपोर्ट प्रशासन और मैकेनिक के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है। इसमें कर्मचारी को प्लेन में ईधन की मात्रा पूछते सुना जा सकता है। एक जगह पर कर्मचारी कहता है कि प्लेन



की लैंडिंग मैं ख़ुद करा सकता हूं, क्योंकि ये एक वीडियो गेम खेलने जैसा है लेकिन अगर सफल लैंडिंग होती है तो क्या एयरलाइंस मुझे नौकरी देगी। क्लिप में अधिकारी युवक से प्लेन लैंड कराने की अपील करते सुनाई देते हैं।

हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, ९ की मौत टोक्यो। जापान की गुंमा की पहाड़ियों में रेस्क्यू टीम का सरकारी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें

सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई । दर्घटना के तरंत

बाद चालक दल के 2 सदस्य भी इसमें मारे गए। यह

जानकारी रेस्क्यू टीम के अन्य सबस्यों ने दी।



#### खबर संक्षेप

यह कोर्ड

आतक

घटना नही

#### सिद्धू १८ को पाक जाएंगे गावस्कर ने मना किया



चंडीगढ। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए 18 अगस्त इस्लामाबाद में प्रस्तावित उनके शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धु को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। सिद्धू ने आमंत्रण प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए यहां बताया कि खान ने टेलीफोन पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है जबिक पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर इसमें भाग नहीं लेंगे।

#### भूकंप से १० इंच खिसका लोम्बोक



जकार्ता। इंडोनेशिया में लगातर 5 दिन से लग रहे भूकंप के झटकों से लोम्बोक आईलैंड अपनी जगह से करीब 10 इंच (25 सेंटीमीटर) खिसक गया है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 332 पहुंच चुकी है। लोम्बोक आईलैंड पर 5 अगस्त को भकंप के जोरदार झटके महसुस किए गए थे. रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई थी। भूकंप आने के बाद सूनामी की चेतावनी जारी कई गई थीं, लेकिन कुछ घंटों बाद यह वापस ले ली गई।

## करोड्पति महिला



लीसा फिकोञ्स्की ब्रकलीन के संपन्न इलाके में रहती हैं। 60 साल की लीसा करोडपति महिला हैं लेकिन फिर भी वह कचरा बीनती हैं। खबर के अनुसार लीसा के पास न्यूयॉर्क शहर के आस-पास करीब 80 लाख डॉलर की संपत्ति है। मगर. उन्होंने एक ऐसी जगह भी निवेश कर रखा है, जो रहने योग्य नहीं है। उन्होंने उन्होंने कहा कि यह शारीरिक गतिविधि है, जो उन्हें फिट रखती है। बताते चलें कि लीसा ने शिकागो विश्वविद्यालय से एमबीए किया है।

### शेंपू की बोतल में कैमरे लगा बनाए

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में एक हॉस्टल मालिक पर बाथरूम में रखी शैंप की बोतलों में कैमरे छिपाकर महिलाओं के वीडियो बनाने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से 34 महिलाओं की 219 क्लीपिंग बरामद की हैं। जुर्म साबित हुआ तो उसे 14 साल की जेल हो सकती है। बताते हैं कि जब कोई नई महिला हॉस्टल में रहने आती थी तो आरोपी उसके बाथरूम में शॉवर के पास पहले ही शैंपू की बोतल रख आता था जिससे उसके बाथरूम के अंदर की गतिविधियां कैमरे में कैद हो

#### आम सूचना भूखंड क्रमांक-01 स्थित ग्राम-चौपड़ाकल तहसील हुजूर जिला भोपाल के संबंध में

ग्राम-चौपज़कलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल से उसके स्वयं के मालिकी, स्वामित्व एवं आधिपत्य स उसक स्वयं क मातिका, स्वामत्व एवं आधिपद्ध का एक किता भूखण्ड क्रमांक-01 जो कि भूमि खसरा क्रमांक-167/4/2/ख/3/3/2 रकबा-1.124 हेक्टेयर का अंश भाग होकर ग्राम चौपज्जकतां, प.ह.नं.-16, रा.नि.मं.-02, विकास खण्ड फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 42/45-2000 वर्गफिक है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ पूरब में-रास्ता, पश्चिम में-सरदार जी की भूमि, उत्तर में-मेन विदिश रोड, दक्षिण में- भूखण्डक्रमांक 01 का अर्द्धभाग है, के संबध में टोकन बयाना राशि मेरे पक्षकार ने अदा कर दी है, यदि उक्त सुम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था या निजी साहूकार, बैंक, य अन्य किसी शासकीय,अशासकीय,अर्दुशासकीर संस्था इत्यादि का कोई वाद विवाद लेनदारी या अन्य प्रकार का प्रभार व किसी भी प्रकार का स्वामित्व संबंधी विवाद आदि विद्यमान हो या उक्त भूमि के संबंध में कोई विक्रय अनुबंधपत्र निष् किया गया हो तो इस सचना प्रकाशन के 07 क्या गया हा ता इस सूचना प्रकाशन क 07 (सात) विवस के अंदर मेरे कार्यालय में लिखित रूप में वैधानिक आपित प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें, अवधि व्यतीत होने पर मेरे पक्षकार पर कोई आपित मान्यू नहीं होगी और मेरा पक्षकार उपरोक्त सम्पत्ति/भूमि के विक्रय-पत्र का पंजीय अपने पक्ष में करने के लिये स्वतंत्र होगा।

महेश कुमार पाल अधिवक्ता पाल लॉ चेम्बर-कार्या.पटेल मार्केट के सामने भानपुर चौराहा, विदिशा रोड, भोपाल

### अमेरिका में विदेशी छात्रों पर सख्ती, नई नीति बनी खतरा

# 'स्टूडेंट स्टेटस' का उल्लंघन करने पर लगेगा ३-१० साल तक प्रतिबंध



एजेंसी ▶े मुंबई

अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने वाले करीब 1.86 लाख छात्रों के भविष्य पर वहां की नई नीति खतरा बन गई है। दरअसल, 9 अगस्त से लागू होने वाली नीति के तहत 'स्टूडेंट स्टेटस' का उल्लंघन करने के अगले दिन ही छात्र और साथ गए व्यक्ति को अमेरिका में अवैध माना जाएगा, भले ही उनके रुकने की अवधि पूरी नहीं हुई हो। नई नीति के तहत अगर उल्लंघन के 180 दिन बाद छात्र अमेरिका छोड़ता है तो 3 से 10 साल तक के लिए वापसी प्रतिबंधित हो सकती है। पहले नियम था कि अवैध मौजुदगी तब करार दी जा सकती है जब उल्लंघन का पता लगा हो या इमीग्रेशन जज इस बारे में आदेश दें। अवैध मौजुदगी भी केवल इजाजत से ज्यादा समय तक रुकने पर नहीं बल्कि कई कारणों से हो सकती है।

अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों पर अब ट्रंप सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 9 अगस्त से लागू इस नई नीति के मुताबिक अगर किसी विदेशी छात्र ने इसका उल्लंघन किया, 180 दिन के बाद अमेरिका छोड देता है तो उसके अमेरिका वापसी पर 3 से 10 साल तक का प्रतिबंध लगेगा।

#### खास बात

- पढ़ाई के लिए एक सप्ताह में अनिवार्य तय सीमा सीमा पूरा नहीं करने पर माना जाएगा अवैध
- गलती से किसी संस्थान से गलत डेटा एंट्री या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समय छात्र की डिग्री मेल नहीं खाने पर दिया जाएगा



#### अनधिकृत नौकरी भी पड़ सकती है भारे

जैसे किसी छात्र ने शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के लिए एक हफ्ते के अंदर अनिवार्य तय समय सीमा को पूरा नहीं किया तो उसे अवैध माना जा सकता है। अनिधकृत नौकरी या ज्यादा रुकने पर भी यह हो सकता है। इमिग्रेशन डॉट कॉम के मैनेजिंग अटर्नी राजीव खन्ना बताते हैं कि कभी किसी संस्थान की चक से गलत डेटा एंटी हो गई या पैक्टिकल टेनिंग करने गए छात्र का काम डिग्री के साथ मेल नहीं खाता तो उसे अवैध करार दे दिया जाएगा।

## सकते हैं आवेदन

इस नीति के तहत यदि किसी का स्टडेंट स्टेटस चला जाता है तो वह पांच महीने के अंदर बहाली का आवेदन दे सकता है। ऐसा करने पर अवैध मौजूदगी के दिनों की विानती रुक जाएगी, हालांक<u>ि</u> अगर आवेदन खारिज कर दिया गया तो खारिज किए जाने के अगले दिन से यह फिर शुरू हो जाएगी। न्यूयॉर्के में आप्रवासन अटर्नी और एक लॉ फर्म मे मैनेजिंग पार्टनर साइरस डी मेहता ने बताया कि अगर किसी छात्र ने अनजाने में अपना स्टेटस खो दिया है और उसे कई साल बाद इस बारे में पता चलता है तो उल्लंघन के दिन से उसकी मौजुद्धभी अवैध मानी जाएभी और उसे अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी

#### संयुक्त राष्ट्र का दावा

## चीन ने गुप्त शिविरों में कैद किए १० लाख मुसलमान



मानवाधिकार पैनल ने शिनजियांग प्रांत में सामृहिक हिरासत शिविरों में कैद उइगर मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मलन कमेटी की सदस्य गे मैकडॉगल ने यह दावा किया है। चीन की नीतियों के दो दिवसीय रिव्यू के दौरान कमिटी की सदस्य ने कहा कि पेइचिंग ने इस स्वायत्त क्षेत्र को एक विशाल नजरबंदी शिविर जैसा बना रखा है। ऐसा लगता है कि यहां सारे अधिकार निषिद्ध हैं और सब कुछ गुप्त है। उनके मताबिक धार्मिक उग्रवाद से निपटने के लिए चीन ने ऐसा किया है। मैकडॉगल ने चिंता जताई है कि सिर्फ



हवाले से कहा है विदेशों से शिनजियांग

प्रांत में लौटने वाले सैकडों उड़गर छात्र

#### हिरासत में कई मर गए

गायब हो गए हैं।

उन्होंने दावा किया कई हिरासत में हैं और कई हिरासत में मर भी चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 50 सदस्योय चीनी प्रतिनिधिमंडल ने अब तक मैकडॉगल के आरोपों का जवाब नहीं दिया है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत यू जियानहुआ ने अल्पसंख्यकों के लिए चीन की नीतियों को सराहा है।

### ८ रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या

तिराना। अल्बानिया में एक व्यक्ति ने अपने 8 रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी। अल्बानिया पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यक्ति अभी फरार चल रहा है और उसके पास हथियार है. जिससे वह लोगों के लिए खतरा बन गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि राजधानी तिराना से 90 किलोमीटर (55 मील) दक्षिण रेसुलाज गांव में रिदवान जाइकाज (24) ने दो जाइकाज परिवारों के 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।

## नीरव और उसके परिवार को नोटिस पेश नहीं हुए तो जब्त होगी संपत्ति



एजेंसी 🕪 नई दिल्ली

विशेष भगोड़ा आर्थिक अपराध कानन अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को आज सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है। इसमें कहा गया कि अगर वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी

2 हजार करोड़ देने का आदेश **कैलिफोर्निया।** यहां की एक अदालत ने मोनसेंटो को कैंसर पीड़ित को करीब दो हजार करोड़ रुपए ढेने का आढेश ढिया है।

#### क्या कहा गया नोटिस में कहा गया कि इसलिए मैं नीरव दीपक मोदी को मेरे समक्ष २५ सितंबर सुबह 11 बजे तक अथवा उससे पहले हाजिर होने के निर्देश देता हूं

पर इस आवेदन पर अध्यादेश/नियमों के अनुसार कर्रवाई की संपत्ति नए कानून के तहत

जब्त कर ली जाएगी। एम एस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं क्योंकि

Place :- BHOPAL

और ऐसा नहीं करने

प्रवर्तन निदेशालय ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है। ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं।

### नडेला ने २४१ करोड में बेचे ३० प्रतिशत शेयर



वा शिंग टन। सीईओ नडेला ने अपने दिए। इससे उन्हें 3.5

करोड़ डॉलर (241 करोड़ रुपए) की रकम मिली। नडेला ने 109.08 से 109.68 डॉलर की प्राइस रेंज के बीच 3 लाख 28 हजार शेयरों का सौदा किया। यह बिक्री शेयर के रिकॉर्ड प्राइस के करीब हुई। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 25 जुलाई को 110.83 डॉलर पर बंद हुआ जो अब तक का हाई है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया नडेला ने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए शेयर बेचे हैं।

#### अभी भी ७.७८ लाख शेयर

एक तिहाई शेयर बेचने के बाद भी नडेला के पास 7 लाख ७८ हजार ५९६ सामान्य शेयर बचे हुए हैं। पिछले साल २९ सितंबर तक उनके पास २२.८ लाख अंडरलाइंग शेयर भी थे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को अपनी बेसिक सैलरी का 15 गुना शेयरों के रूप में रखना पड़ता है। कुल भत्तों समेत उन्हें पिछले साल दो करोड़ डॉलर (138 करोड़ रुपए) मिले।

### कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक १० अ-८२/१७-१८ भू-अर्जन/९११८

// र्डश्तहार //

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा कोयलारी लघु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम कोयलारी प.ह.न 30/71 तहसील भैसेदेही जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमित के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है :-

अ.क्र.	खसरा नम्बर	रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा क्रय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	172/8	0.465	0.113	माधोराव व. बाजीराव जाति कुन्बी
	173/4	0.600	0.580	सा. देह भूमि स्वामी
	173/5	0.300	0.009	
	173/8	0.600	0.490	
	योग		1.192	

अतएव आवेदक सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम कोयलारी तहसील भैसदेही के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों की कुल 1.192 हे. भूमि आपसकी सहमति से क्रय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपित हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपित स्वंय या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 3/8/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।

जी-17366/18

महिला हैल्प लाईन 1090/ MPeCOP मोबाईल एप/डालय 100 (शशांक मिश्र) कलेक्टर बैतुल

#### स्टार डेल्टा ट्रान्सफॉर्मर्स लिमिटेड

सी.आई.एन.: L31102MP1977PLC001393 पंजीकृत कार्यालयः 92-अ, इन्डस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.)-462023, फोनः +91-0755 2586680 ई-मेलः star.delta@rediffmail.com | वेबसाइटः www.stardeltatransformers.com

#### EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2018 **Particulars** Year ended Quarter Preceding Corresponding the previous yea 30.06.2018 31.03.2018 30.06.2017 31.03.2018 (Un-audited ) ( Audited ) (Un-audited) (Audited ) Total Income from operations (net) 2080.26 2389.32 2304.76 6060.65 Net Profit / (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extra ordinary items) 99.01 251.43 118.48 324.74 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 99.01 251.43 118.48 324.74 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items) 80.03 219.62 105.72 217.74 Total comprehensive income for the period 0.00 0.00 0.00 0.00 **Equity Share Capital** 300.02 300.02 300.02 300.02 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous year) 3922.11 3842.08 3730.06 3842.08 Earning Per Share (of Rs. 10/- each) 2.67 7.32 3.52 7.26 2.67 7.26 Diluted 7.32 3.52

NOTES: • This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

• The above result have been reviewed by Audit Committee, approved by the Board in the meeting held on 10th August, 2018 • The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly, Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company website (www.stardeltatransformers.com)

For Star Delta Transformers Limited

Kishore Gupta

### कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड बैतुल (म.प्र.)

दूरमाष (07141) कार्यालय 238320, फैक्स-238320 Email- eephedbet@mp.nic.in

// निविदा आमंत्रण सूचाना //

निम्निलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डिरिंग पद्धित से ई प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://www.mpeproc.gov.in पर

निवदा क्रमांक	सिस्टम	कार्य का नाम	निविदा की	धरोहर	निविदा	कार्यपूर्ण करने	ठेकेदार की	आमंत्रण
/दिनांक	क्रमांक		कुल लागत	राशि	प्रपत्र का	की समयावधि	श्रेणी	
			रू लाख में		मूल्य			
120/18-19/	32678	विकासखंड आमला के ग्राम अंधारिया में नलजल	41.22	50000	5000	3 माह वर्षा	नवीन केन्द्रीकृत	द्वितीय
Dt.07.8.18		प्रदाय योजना का कियान्वयन खुले कुए का				ऋतु सहित	पंजीयन प्रणाली	
		निर्माण कार्य. पाईप लाईन विधुत संयोजन				,	में "सी" श्रेणी	
		पंपहाउस एवं घरेलू नलकनेक्शन का कार्य करना एवं योजना का 1 वर्ष तक संचालन/					एवं ऊपर	
		संधारण करने का कार्य।						
122/18-19/	32680	बैतुल जिले के विकासखंड बैतुल के	4.74	9480	2000	01 माह वर्षा	नवीन केन्द्रीकृत	प्रथम
Dt.07.8.18		विभिन्न ग्रामो में 05 नग रिर्चाज साफ्ट				ऋतु सहित	पंजीयन प्रणाली	
		तथा 10 नग रिर्चाज पिट निर्माण कार्य।					में "सी" श्रेणी	
							एवं ऊपर	

ऑनलाईन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि 23.08.2018 17.30 बजे ऑनलाईन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि 24.08.2018 17.30 बजे मल दस्तावेज धरोहर राशि सहित कार्यलय में प्रस्तुत करने की तिथि 25.08.2018 17.30 बजे लिफाफा - अ खोलने की तिथी 27.08.2018 11.30 बजे

ऑनलाईन निविदा लिफाफा- स खोलने की तिथि 27.082018 14.00 बजे निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाईट पर (online system) केडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दशाई गई वेबसाइट पर देखें।

> कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड बैतुल (म.प्र.)

महिला हैल्प लाईन जी-17417/18 1090/MPeCOP मोबाईल एप/डालय100

# अश्लील वीडियो

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्री

9669480151,8989095725